



## पेंशन भोगी द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु प्रमाण-पत्र

### 1-जीवित होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जात है कि पेंशनभोगी श्री ..... धारक  
पी0पी0ओ0 संख्या ..... जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद (केन्द्रीय) के पेंशनर  
बैंक ..... खाता संख्या ..... से पेंशनर आहरित कर रहे  
हैं/रही हैं को स्वयं देखा है और यह कि वह आज की तारीख में जीवित हैं।

स्थान ..... अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर .....  
दिनांक ..... नाम .....  
मुहर .....

### 2- रोजगार रहित होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करके/बिना पूर्व अनुमति प्राप्त  
किये वाणिज्यक रोजगार स्वीकार किया।

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करके /बिना पूर्व अनुमति प्राप्त  
किए भारत सरकार के परिधि के बाहर या किसी भी सरकार के अधीन किसी प्रकार का रोजगार स्वीकार  
किया है/स्वीकार नहीं किया है।

स्थान ..... अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर .....  
दिनांक ..... पेंशनभोगी का नाम .....

### 3- पुनर्विवाह/अविवाहित होने का प्रमाण-पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैं विवाहित नहीं हूँ/मैंने पिछले एक वर्ष के अन्दर विवाह नहीं किया  
है।

या

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने पुनर्विवाह नहीं किया है तथा ऐसा करने पर मैं वित्त अधिकारी  
इलाहाबाद विश्वविद्यालय को सूचित करूँगा/करूँगी।

स्थान ..... अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर .....  
दिनांक ..... पेंशनभोगी का नाम .....  
नोट : जो लागू न हो उसे काट दें।

डॉ०/श्री/श्रीमती .....

का जीवित प्रमाण पत्र प्राप्त किया।

सहायक कुल सचिव (लेखा)

दिनांक



# UNIVERSITY OF ALLAHABAD

## COMPUTER INPUT FORM

Please declare your earnings other than Salary and Investments for Assessment of  
Income Tax for the Financial Year (2011-2012) Assessment Year (2012-2013)

Full Name..... (As per PAN Card) Designation.....  
Sex:M/F..... Department..... Page No./PPO No.....  
PAN No.....(Attach Photocopy of Card) Residential Address.....  
..... Date of Birth.....

1. Details of Any Income from House Property - Rent Received) Rs.....
2. Actual HOUSE RENT paid annually (Submit Receipt) Rs.....
3. Income received from other sources Rs.....
4. Saving Bank Interest and any other income earned Rs.....  
Interest on NSC purchased in previous year claimed u/s 80C Rs.....
5. Investment entitled for deduction U/S 80C (Rs. 1,00,000/ Maximum) + Rs. 20,000  
Long Term Infrastructure Bonds U/S 80CCF & Claim for deduction U/S 80 D to 80 U  
(a) Jeevan Suraksha etc. Rs.....  
(b) U/S 80DD for physically Handicap Dependent Upto 80% Rs. 100,000 Rs.....  
Severe or Normal (Enclose copy of certificate)  
(c) U/S 80 U for Personal Disability (Upto 40% Rs. 40,000/- above 80% Rs. 100,000) Rs.....  
(d) U/S 80 D Medical Insurance Premium paid Rs.....  
(e) U/S 80 DDB (submit a Certificate from Govt. Hospital) Rs.....  
(f) Interest paid on House Building Loan U/S 24 (b) Rs.....  
(g) U/S 80 E (Education Loan) Rs.....  
(h) LIC Premium paid Directly (other than salary) Rs.....  
(i) NSC Purchased during current year Rs.....  
(j) P.P.F. (Public Provident Fund) Amount Deposit Receipt) Rs.....  
(k) U.L.I.P. Premium Rs.....  
(l) Principal amount (House Building Loan) Rs.....  
(m) Tax Saving Bonds ICICI, IDBI etc. (Short term / Long Term) Rs.....  
(n) Tution Fee paid on 1st Child Rs.....  
(o) Tution Fee paid on 2<sup>nd</sup> Child Rs.....  
(p) Interest on Previous NSC Rs.....  
(q) Long Term Infra Structure Bonds U/S 80 CCF Rs.....  
(r) Mutual Funds Rs.....

The declarations made above are correct of the best of my knowledge & belief and I will be solely responsible for any thing declared above found to be incorrect. I further declare that I will indemnify the losses occurred to the employer due to my mistake, if any.

Signature of the Employee

- Note.** 1. Please attach photocopy in proof of the Investments made, without which the Investment and its benefit will not be considered.  
2. Please **RETURN this "INPUT FORM"** duly filled and signed to the Accounts Section along with Salary Bill/Pension failing which the "**Pre-Assessed Income Tax**" will be deducted from your salary / Pension

Prepared by U.I.S. UNIT, Computer Centre, M.C.C. Campus, Allahabad University

### INCOME TAX RATE / RATES BELOW 60 YEARS

Upto Rs. 1,80,000..... Tax nil for (MALE)  
Upto Rs. 1,90,000..... Tax nil for (FEMALE)  
Rs. 1,60,001 to 5,00,000 ..... Tax 10% for (MALE)  
Rs. 1,90,001 to 5,00,000..... Tax 10% for (FEMALE)  
Rs. 5,00,001 to 8,00,000..... Tax 20%  
Above Rs. 8,00,001..... Tax 30%  
Education Cess.....3%

### SENIOR CITIZEN ABOVE 60 YEARS

Upto Rs. 2,50,000..... Tax nil for (MALE / FEMALE)  
Upto Rs. 2,40,001 to 5,00,000..... Tax 10% Rs.  
Rs. 5,00,001 to 8,00,000..... Tax 20%  
Above Rs. 8,00,001..... Tax 30%  
Education Cess.....3%  
**SENIOR CITIZEN ABOVE 80 YEARS**  
Upto Rs. 5,00,000..... Income Tax nil  
Rs. 5,00,000 to 8,00,000..... Tax 20%  
Above Rs. 8,00,001..... Tax 30%  
Education Cess.....3%